

	केंद्रीय कर आयुक्त (अपील)	
सत्यमेव जयते	O/O THE COMMISSIONER (APPEALS), CENTRAL TAX, केंद्रीय उत्पाद शुल्क भवन, सातवीं मंजिल, पॉलिटेक्निक के पास, आम्बावाडी, अहमदाबाद-380015	7 th Floor, Central Excise Building, Near Polytechnic, Ambavadi, Ahmedabad-380015
 079-26305065		टेलीफैक्स : 079 - 26305136

रजिस्टर डाक ए .डी .द्वारा

क फाइल संख्या (File No.): V2(48)110 /Ahd-II/Appeals-II/ 2016-17/1637 40 1637
 ख अपील आदेश संख्या (Order-In-Appeal No.): AHM-EXCUS-002-APP- 98-17-18
 दिनांक (Date): 25.09.2017 जारी करने की तारीख (Date of issue): 12-10-17
 श्री उमा शंकर, आयुक्त (अपील) द्वारा पारित
 Passed by Shri Uma Shanker , Commissioner (Appeals)

ग _____ आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, (मंडल-IV), अहमदाबाद- II, आयुक्तालय द्वारा जारी
 मूल आदेश सं----- दिनांक -----से सृजित
 Arising out of Order-In-Original No . 62/DC/D/2016/RK Dated: 24/11/2016 issued by:
 Deputy Commissioner Central Excise (Div-IV), Ahmedabad-II

घ अपीलकर्ता/प्रतिवादी का नाम एवम पता (Name & Address of the Appellant/Respondent)

M/s Astron packaging Limited

कोई व्यक्ति इस अपील आदेश से असंतोष अनुभव करता है तो वह इस आदेश के प्रति यथास्थिति नीचे बताए गए सक्षम अधिकारी को अपील या पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत कर सकता है ।

Any person an aggrieved by this Order-in-Appeal may file an appeal or revision application, as the one may be against such order, to the appropriate authority in the following way:

भारत सरकार का पुनरीक्षण आवेदन :
Revision application to Government of India:


(1) (क) (i) केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1994 की धरा अतत नीचे बताए गए मामलों के बारे में पूर्वोक्त धारा को उप-धारा के प्रथम परंतुक के अंतर्गत पुनरीक्षण आवेदन अधीन सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, चौथी मंजिल, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को की जानी चाहिए ।

A revision application lies to the Under Secretary, to the Government of India, Revision Application Unit, Ministry of Finance, Department of Revenue, 4th Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi-110001, under Section 35EE of the CEA 1944 in respect of the following case, governed by first proviso to sub-section (1) of Section-35 ibid:

(ii) यदि माल की हानि के मामले में जब हानि कारखाने से किसी भंडारगार या अन्य कारखाने में या किसी भंडारगार से दूसरे भंडारगार में माल ले जाते हुए मार्ग में, या किसी भंडारगार या भंडार में चाहे वह किसी कारखाने में या किसी भंडारगार में हो माल की प्रक्रिया के दौरान हुई हो ।

In case of any loss of goods where the loss occur in transit from a factory to a warehouse or to another factory or from one warehouse to another during the course of processing of the goods in a warehouse or in storage whether in a factory or in a warehouse

(ख) भारत के बाहर किसी राष्ट्र या प्रदेश में निर्यातित माल पर या माल के विनिर्माण में उपयोग शुल्क कच्चे माल पर उत्पादन शुल्क के रिबेट के मामले में जो भारत के बाहर किसी राष्ट्र या प्रदेश में निर्यातित है ।



- (c) In case of goods exported outside India export to Nepal or Bhutan, without payment of duty.

अंतिम उत्पादन की उत्पादन शुल्क के भुगतान के लिए जो ड्यूटी क्रेडिट मान्य की गई है और ऐसे आदेश जो इस धारा एवं नियम के मुताबिक आयुक्त, अपील के द्वारा पारित वो समय पर या बाद में वित्त अधिनियम (नं.2) 1998 धारा 109 द्वारा नियुक्त किए गए हों।

- (d) Credit of any duty allowed to be utilized towards payment of excise duty on final products under the provisions of this Act or the Rules made there under and such order is passed by the Commissioner (Appeals) on or after, the date appointed under Sec.109 of the Finance (No.2) Act, 1998.

- (1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील) नियमावली, 2001 के नियम 9 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रपत्र संख्या इए-8 में दो प्रतियों में, प्रेषित आदेश के प्रति आदेश प्रेषित दिनांक से तीन मास के भीतर मूल-आदेश एवं अपील आदेश की दो-दो प्रतियों के साथ उचित आवेदन किया जाना चाहिए। उसके साथ खाता इ. का मुख्यशीर्ष के अंतर्गत धारा 35-इ में निर्धारित फी के भुगतान के सबूत के साथ टीआर-6 चालान की प्रति भी होनी चाहिए।

The above application shall be made in duplicate in Form No. EA-8 as specified under Rule, 9 of Central Excise (Appeals) Rules, 2001 within 3 months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated and shall be accompanied by two copies each of the OIO and Order-In-Appeal. It should also be accompanied by a copy of TR-6 Challan evidencing payment of prescribed fee as prescribed under Section 35-EE of CEA, 1944, under Major Head of Account.

- (2) रिविजन आवेदन के साथ जहाँ संलग्न रकम एक लाख रुपये या उससे कम हो तो रुपये 200/- फीस भुगतान की जाए और जहाँ संलग्न रकम एक लाख से ज्यादा हो तो 1000/- की फीस भुगतान की जाए।

The revision application shall be accompanied by a fee of Rs.200/- where the amount involved is Rupees One Lac or less and Rs.1,000/- where the amount involved is more than Rupees One Lac.

सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रति अपील:-
Appeal to Custom, Excise, & Service Tax Appellate Tribunal.

- (1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35-बी/35-इ के अंतर्गत:-

Under Section 35B/ 35E of CEA, 1944 an appeal lies to :-

- (क) वर्गीकरण मूल्यांकन से संबंधित सभी मामले सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण की विशेष पीठिका वेस्ट ब्लॉक नं. 3. आर. के. पुरम, नई दिल्ली को एवं

- (a) the special bench of Custom, Excise & Service Tax Appellate Tribunal of West Block No.2, R.K. Puram, New Delhi-1 in all matters relating to classification valuation and.

- (ख) उक्तलिखित परिच्छेद 2 (1) क में बताए अनुसार के अलावा की अपील, अपीलो के मामले में सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सिस्टेट) की पश्चिम क्षेत्रीय पीठिका, अहमदाबाद में ओ-20, न्यू मैनटल हॉस्पिटल कम्पाउण्ड, मेघानी नगर, अहमदाबाद-380016.

- (b) To the west regional bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) at O-20, New Metal Hospital Compound, Meghani Nagar, Ahmedabad : 380 016. in case of appeals other than as mentioned in para-2(i) (a) above.

- (2) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील) नियमावली, 2001 की धारा 6 के अंतर्गत प्रपत्र इए-3 में निर्धारित किए अनुसार अपीलीय न्यायाधिकरणों की गई अपील के विरुद्ध अपील किए गए आदेश की चार प्रतियाँ सहित जहाँ उत्पाद शुल्क की मांग, ब्याज की मांग और लगाया गया जुर्माना रूपए 5 लाख या उससे कम है वहां रूपए 1000/- फीस भेजनी होगी। जहाँ उत्पाद शुल्क की मांग, ब्याज की मांग और लगाया गया जुर्माना रूपए 5 लाख या 50 लाख तक हो तो रूपए 5000/- फीस भेजनी होगी। जहाँ उत्पाद शुल्क की मांग, ब्याज की मांग और लगाया गया जुर्माना रूपए 50 लाख या उससे ज्यादा है वहां रूपए 10000/- फीस भेजनी होगी। की फीस सहायक रजिस्टार के नाम से

रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के रूप में संबंध की जाये। यह ड्राफ्ट उस स्थान के किसी नामित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की शाखा का हो जहाँ उक्त न्यायाधिकरण की पीठ स्थित है।

The appeal to the Appellate Tribunal shall be filed in quadruplicate in form EA-3 as prescribed under Rule 6 of Central Excise(Appeal) Rules, 2001 and shall be accompanied against (one which at least should be accompanied by a fee of Rs.1,000/-, Rs.5,000/- and Rs.10,000/- where amount of duty / penalty / demand / refund is upto 5 Lac, 5 Lac to 50 Lac and above 50 Lac respectively in the form of crossed bank draft in favour of Asstt. Registrar of a branch of any nominate public sector bank of the place where the bench of any nominate public sector bank of the place where the bench of the Tribunal is situated.

- (3) यदि इस आदेश में कई मूल आदेशों का समावेश होता है तो प्रत्येक मूल आदेश के लिए फीस का भुगतान उपर्युक्त ढंग से किया जाना चाहिए इस तथ्य के होते हुए भी कि लिखा पढी कार्य से बचने के लिए यथास्थिति अपीलीय न्यायाधिकरण को एक अपील या केन्द्रीय सरकार को एक आवेदन किया जाता है।

In case of the order covers a number of order-in-Original, fee for each O.I.O. should be paid in the aforesaid manner notwithstanding the fact that the one appeal to the Appellant Tribunal or the one application to the Central Govt. As the case may be, is filled to avoid scriptoria work if excising Rs. 1 lacs fee of Rs.100/- for each.

- (4) न्यायालय शुल्क अधिनियम 1970 यथा संशोधित की अनुसूची-1 के अंतर्गत निर्धारित किए अनुसार उक्त आवेदन या मूल आदेश यथास्थिति निर्णयन प्राधिकारी के आदेश में से प्रत्येक की एक प्रति पर रु.6.50 पैसे का न्यायालय शुल्क टिकट लगा होना चाहिए।

One copy of application or O.I.O. as the case may be, and the order of the adjournment authority shall a court fee stamp of Rs.6.50 paise as prescribed under scheduled-I item of the court fee Act, 1975 as amended.

- (5) इन ओर संबंधित मामलों को नियंत्रण करने वाले नियमों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है जो सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (कार्याविधि) नियम, 1982 में निहित है।

Attention is invited to the rules covering these and other related matter contended in the Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982.

- (6) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सिस्टेट), के प्रति अपील के मामले में कर्तव्य मांग (Demand) एवं दंड (Penalty) का 10% पूर्व जमा करना अनिवार्य है। हालांकि, अधिकतम पूर्व जमा 10 करोड़ रुपए है। (Section 35 F of the Central Excise Act, 1944, Section 83 & Section 86 of the Finance Act, 1994)

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर के अंतर्गत, शामिल होगा "कर्तव्य की मांग" (Duty Demanded) -

- (i) (Section) खंड 11D के तहत निर्धारित राशि;
- (ii) लिया गलत सेनवैट क्रेडिट की राशि;
- (iii) सेनवैट क्रेडिट नियमों के नियम 6 के तहत देय राशि.

⇒ यह पूर्व जमा 'लंबित अपील' में पहले पूर्व जमा की तुलना में, अपील दाखिल करने के लिए पूर्व शर्त बना दिया गया है।


For an appeal to be filed before the CESTAT, 10% of the Duty & Penalty confirmed by the Appellate Commissioner would have to be pre-deposited. It may be noted that the pre-deposit is a mandatory condition for filing appeal before CESTAT. (Section 35 C (2A) and 35 F of the Central Excise Act, 1944, Section 83 & Section 86 of the Finance Act, 1994)

Under Central Excise and Service Tax, "Duty demanded" shall include:

- (i) amount determined under Section 11 D;
- (ii) amount of erroneous Cenvat Credit taken;
- (iii) amount payable under Rule 6 of the Cenvat Credit Rules.

इस सन्दर्भ में इस आदेश के प्रति अपील प्राधिकरण के समक्ष जहाँ शुल्क अथवा शुल्क या दण्ड विवादित हो तो माँग किए गए शुल्क के 10% भुगतान पर और जहाँ केवल दण्ड विवादित हो तब दण्ड के 10% भुगतान पर की जा सकती है।

In view of above, an appeal against this order shall lie before the Tribunal on payment of 10% of the duty demanded where duty or duty and penalty are in dispute, or penalty where penalty alone is in dispute."



ORDER IN APPEAL

Subject appeal is filed by M/s.Astron Packaging Ltd.,Plot No. 22to24, Mahagujrat Ind. Estate, Vill-Moraiya,Ta-Sanand,,Ahmedabad(hereinafter referred to as "the appellant] against OIO no.62/DC/D/2016/RK [hereinafter referred to as '*the impugned order*') passed by The Asstt.Commissioner,Central Excise,div-IV, Ahmedabad-II (hereinafter referred to as '*the adjudicating authority*').they are engaged in the manufacture of packeging goods falling under Chapter48,47,& 76 of the Central Excise Tariff Act,1985[*hereinafter referred to as CETA, 1985*'] The appellant is availing benefit of cenvat credit under the Cenvat Credit Rules, 2004.

2. Brief facts of the case is that during the course of audit ,it was observed that for the period from JULY-2011 to OCT-2014, the appellant had wrongly availed credit of service tax on courier services, same was not covered under the definition of input service as per Rule 2(1) of Cenvat Credit Rules 2004. Therefore, Show cause notice issued for recovery of the cenvat credit taken of Rs.76534/- along with interest and penalty. Vide the impugned order confirmed the demand along with interest and imposed penalty on the appellant.

3. Aggrieved by the said OIO, the appellant have filed this appeal on the following main grounds.

a. That the words 'in relation to' in the said definition is very crucial . That any service which has a direct or indirect connection with manufacturing clearance and activities has to be treated as 'in relation to' that manufacturing activities.

b. That they have correctly taken the credit of cenvat credit of service tax paid on the courier services which were used for dispatch of bills/samples etc. and for procurement of inputs from their suppliers. Same are very much connected to their activity of manufacturing and clearance.

c. That the cost of the courier services has been accounted for in their books of accounts as expenditure. The said services are squarely covered in the definition of the input service.

d. They have relied on the case laws of 1. Ambalal Sarabhai Enterprises Ltd. Vs CCE cited 2016 (45) STR 174 (Guj). 2. Subros Ltd. V. CCE Gurgaon-I cited in 2017 (47) STR 159 (Tri-Del] 3. CCE&ST Banglore-II V.Nash Industries 2016 (45) STR 233 (Tri-Bang.)



4. Personal Hearing was held on 14.09.2017, Shri Kandarp Dholkia CA and G.K.Laddha appeared on behalf of the appellant. They reiterated the written submissions in GOA filed by them, and also filed additional written submission on 14-9-2017 with copies of few decisions. I have gone through all records, the impugned order and written submissions as well as submissions made during personal hearing by the appellant.

5. I find that the issue to be decided is admissibility of Cenvat credit of service tax availed on the Courier services.


I find that, '**input service**' is defined in Rule 2 (I) of the Cenvat Credit Rules, 2004. "*input service*" means any service;

(i) *used by a provider of taxable service for providing an output service; or*

(ii) ***used by the manufacturer, whether directly or indirectly, in or in relation to the manufacture of final products and clearance of final products from the place of removal, and includes services used in relation to setting up, modernization, renovation or repairs of a factory, premises of provider of output service or an office relating to such factory or premises, advertisement or sales promotion, market research, storage upto the place of removal, procurement of inputs, activities relating to business, such as accounting, auditing, financing, recruitment and quality control, coaching and training, computer networking, credit rating, share registry, and security, inward transportation of inputs or capital goods and outward transportation upto the place of removal;***

6. Further, I find that regarding input services, Rule 2 (i) of Cenvat Credit Rules, 2004 defines the eligible category of Services for availing credit. In the present case, I find that there is a nexus between the said service and manufacturing/clearance activities of the appellant. I find that that the definition of input service includes the services which are used 'directly or in directly' in activities relating to manufacturing activities. The scope and the definition of the terms "in or in relation to" is very wide and connotes all the activities related to manufacture /clearance of final products from the place of removal. Therefore, the services 'in relation to' covers all services that are related to the manufacturing /clearance of final products. I rely on the caselaws of 1. Subros Ltd. V. CCE Gurgaon-I cited in 2017 (47) STR 159 (Tri-Del] 2. Ambalal Sarabhai Enterprises Ltd. Vs CCE cited 2016 (45) STR 174 (Guj) and 3. CCE&ST Bangalore-II v.Nash Industries 2016 (45) STR 233 (Tri-Bang]

Therefore, in light of aforesaid case laws, I hold that said service tax credit is admissible to the appellant.



7. In view of the foregoing discussion and findings, I set aside the impugned order and allow the appeal.

8. अपीलकर्ता द्वारा दर्ज की गई अपील का निपटारा उपरोक्त तरीके से किया जाता है।


8. The appeal filed by the appellant stand disposed off in above terms.



(उमा शंकर)

आयुक्त (अपील्स)

Attested



[K.K.Parmar)
Superintendent (Appeals)
Central tax, Ahmedabad

By Regd. Post A. D

M/s. Astron Packaging Ltd.,
Plot No. 22 to 24,
Mahagujrat Ind. Estate,
Vill-Moraiya, Ta-Sanand,
Ahmedabad.

Copy to :-

1. The Chief Commissioner, Central Excise, Ahmedabad.
2. The Commissioner, Central Excise, Ahmedabad-II.
3. The Dy. Commissioner, Central Excise Division-IV, Ahmedabad-II.
4. The Asstt. Commissioner (Systems), Central Excise, Ahmedabad-II.
- ✓ 5. Guard File.
6. PA file.

